





A unit of Artemis Medicare Services Ltd.

July 8, 2025

Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
Mumbai – 400 051

Listing Department,
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001

NSE Symbol: ARTEMISMED Scrip Code: 542919

Sub: <u>Intimation of newspaper publication - Notice of 21st Annual General Meeting ("AGM") and</u> e-Voting information

Dear Sir/ Ma'am,

We hereby wish to inform you that the electronic copies of Notice of 21^{st} AGM and Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2025 have been sent on July 7, 2025 via e-mail to all the Members whose email IDs are registered with the Company/ Alankit Assignment Limited, Registrar and Transfer Agent/ Depository Participant(s) as on June 27, 2025.

Pursuant to Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of advertisement published in the following newspapers on July 8, 2025, regarding intimation of 21st AGM and e-Voting information:

- The Financial Express (English National Daily Newspaper- all editions).
- The Jansatta (Hindi National Daily Newspaper- Delhi edition).

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours Faithfully, For Artemis Medicare Services Limited

Poonam Makkar Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above











PUNISHMENT PUTS OTHER HIGH-FREQUENCY TRADING FIRMS ON NOTICE

Jane Street's India run: From windfall to roadblock

ANTO ANTONY, **CHIRANJIVI CHAKRABORTY** & TOM REDMOND July 7

UNTIL LATE 2024, one of the most lucrative corners of global finance was a 24-story tower southwest of New Delhi.

Home to at least a half dozen high-speed trading firms, the blue-glass building with a rooftop helipad and a bronze bull sculpture in its plaza has been the centre of a trading boom that made India the world's biggest equity derivatives market by volume. Foreign funds and proprietary traders using algorithms made \$7 billion in the 12 months to March 2024 alone.

That bonanza may be coming to an end. On July 4, nine months after markets regulator Sebi tightened restrictions on options trading to protect retail investors, it accused Jane Street Group — one of the market's biggest players — of manipulating prices to generate hundreds of millions of dollars in ill-gotten profits.


The Securities and Exchange Board of India (Sebi) imposed a temporary trading ban on Jane Street, an extraordinary move that became the talk of dealing rooms from New Delhi to Amsterdam. It also ordered the seizure of ₹4,840 crore from the US trading giant, citing illegal gains from "an intentional, wellplanned and sinister scheme." Jane Street, which made more than \$4 billion from India in just over two years, has disputed Sebi's findings.

"Sebi's action against Jane Street is a watershed moment," said Sonam Srivastava, a fund manager at Wright Research."It signals an aggressive stance against sophisticated global players potentially gaming the system."

Even before Sebi's latest announcement, several international market makers were mulling whether to proceed with planned hires and technol**TIGHTENED RESTRICTIONS**



India's exchanges trade the most derivatives globally



ogyinvestments, or to put those plans on hold if their profitmaking potential is severely crimped by regulatory risks.

That's according to executives at global trading firms and people familiar with their plans who asked not to be identified discussing confidential matters. The move is also expected to put a further damper on trading, which slumped 70% in the first five months of this year. News of the crackdown

swept across global trading floors at the end of last week. Some speculated whether other foreign firms might also be in trouble, while chat groups and emails lit up at smaller trading rivals welcoming the move to rein in Jane Street. One Hong Kong trader said their phone was buzzing as soon as the headlines hit, with some people on the trading floor jumping for joy. Another trader in Amsterdam, whose phone went "haywire," said it was a huge surprise, as they hadn't expected Sebi to act.

Jane Street is one of the most active foreign players in India, and the punishment was far bigger than many expected, showing the regulator is serious about tamping down on questionable activity. After four years of unfettered market growth, officials

have become uncomfortable

with the out-

fered by retail

Jane Street started by sized profits of trading exchangeinternational firms traded funds, but and sophisticated later branched out traders in the into high-frequency options martrading. It's now a ket, especially titan in that space given the massive losses suf-

investors on the other side of amounts of money by exploitthe trades.

"It's a landmark order" that puts all high-frequency traders on watch, said Anant Jatia, founder and chief investment officer of Mumbai-based Greenland Investment Management. The regulator sent a clear message, he said: "You are welcome in the market, but you've got to play by the rules."

Jane Street inadvertently

revealed just how lucrative the

market had become during a

high-profile court battle last

year with hedge fund Millen-

nium Asset Management. Jane

Street's billions in profits were

a source of fascination for many market players, and prompted regulators to investigate its trades. India is an ideal market for some popular forms of high-

trades each day, pocketing small ing market anomalies with little risk. These modest gains can accumulate into substan-

frequency trad-

ing, where firms

make numer-

ous rapid-fire

tial profits. The firms' proponents say they play a vital role as market makers, helping price discovery by narrowing the bid-ask spread on trades, or the difference between the highest price a buyer is willing to pay

and the lowest a seller is willing to accept.

Critics argue they use their technological advantages such as having their own servers in data centres owned by stock exchanges — to front-run orders by retail and other investors.

Sophisticated, computerdriven algorithms can also enable large firms to profit from small price fluctuations, or exploit erratic trading behaviour among retail speculators.

India presents a unique opportunity given its market structure. The options market has high retail participation, in part because minimum trade sizes are relatively small, and bets can be made for as little as 12 cents. Options give their holders the right to buy or sell an asset — such as an individual stock or an index — at a specific price on or before a certain date. They enable traders to bet on the direction of stocks for a fraction of the cost of buying and selling the actual securities.

Speed traders currently account for about 60% of the trading volume in India's equity derivatives market, where \$3 trillion in notional value is traded daily, and close to 40% of the country's stock trading, according to data from NSE. Their cumulative market share grew during and after the Covid-19 pandemic, when global giants including Jane Street and Citadel Securities ramped up trading.

All that success for global firms, however, has often come at the expense of small investors. Nine out of 10 individual traders have been losing money from derivatives trades, according to Sebi.

The regulator released a research paper last September that said retail players lost the equivalent of \$21 billion from futures and options in the three years to March 2024. It also said higher trading activity was associated with a higher percentage of loss makers. **—BLOOMBERG**

Open and shut case: Sebi

NESIL STANEY Mumbai, July 7

THE SECURITIES AND Exchange Board of India (Sebi) is quite confident that its interim order on Jane Street (JS) and its affiliates will pass the muster of the Securities Appellate Tribunal (SAT) and higher authorities, said sources in the know.

The US-based market maker said that JS is expected to challenge Sebi's interim order in SAT, and even Supreme Court. The firm's spokesperson on Friday said, "Jane Street disputes the findings of the Sebi interim order and will further engage with the regulator. Jane Street is committed to operating in compliance with all regulations in the regions we operate around the world."

Sebi officials, however, are confident about the order. "This is an open and shut case even for the SEC (Securities and Exchange Commission)," the source said, adding that the interim order clearly indicates investigations will continue across exchanges. "The scope here is quite large," he added.

What makes Sebi's case stronger is that the National Stock Exchange (NSE), acting under instructions from the market regulator, had advised JS in February to avoid high-risk activity in index options and refrain from any trading behaviour that could indicate manipulation. The JS Group gave assurance to the exchange, through its compliance partner Nuvama, that it will fully comply with applicable regulations.

It also appealed that there was no human intervention or malafide intent as trades were driven by algorithms. Satisfied with the reply, the NSE closed the probe on April 30.

However, in May 2025, the group again executed what appeared to be manipulative "extended marking the close" strategies—entering large, aggressive trades in index and stock markets around expiry closing—to move the index in their favour.

The index strategies on expiry days that Sebi cited were executed by at least three large algo traders, said the source close to JS." It can also seek a regulatory settlement of the impound," he said.

Sebi's interim order impounded ₹4,844 crore – the highest ever – of unlawful gains. It also allowed the firm to continue to trade, if it deposits the impounded amount. The idea, said sources, was not to discourage making money but manipulation.

IS had earlier approached Sebi for settlement, said a fund manager at a large foreign portfolio firm (FPI). Early in June 2025, the Futures Industry Association (FIA), a trade body for futures, options and centrally cleared derivatives - with offices in London, Singapore and Washington - had approached Sebi on behalf of Jane. It had suggested a settlement, he said. At that point, Sebi continued with investigations.

Meanwhile in June, several FPI traders and large Indian proprietary traders took their complaints to finance minister Nirmala Sitharaman, and some even raised concerns with the Prime Minister's grievance cell, before Sebi's decision. The regu lator has only skimmed the surface of index manipulations, said the fund manager, who added that Sebi clearly received orders from the finance ministry to

take action on JS. On Friday, Sebi barred JS entities from operations in India. In 2024, JS's India revenues exceeded \$2.3 billion. As per Sebi, Jane's ₹36,502 crore in profits between January 2023 and March 2025, includes ₹43,289 crore profits from index options and ₹7,687 crore losses in cash and futures Jane profited hefty on January 17, 2024, booking ₹734.93 crore from a dramatically engineered move in Bank Nifty.

Comparatively, JS peers Citadel Securities India Markets earned \$344 million for the 12 months ended March 2024 and Optiver BV earned modest profits around \$300 million in calendar year 2024 from options trading in India. Other prominent firms in algo-trading and high-speed trading include IMC Trading, Flow Traders, Tower Research, Two Sigma, Jump Trading, Goldman Sachs, Hudson River and DRW.

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL CHENNAI BENCH II, CHENNAI CA (CAA) 43 /(CHE) /2025 In the matter of the Companies Act, 2013 And In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 And In the matter of Scheme of Amalgamation of Accel Media Ventures Limited with Accel

Corporate Identification No. L30007TN1986PLC100219, having its Registered Office at, 3^o Floor, SFI Complex, 178, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034 ...Applicant/Transferee Company

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that by an order dated the 27.06.2025 the Chennai Bench II of the National Company Law Tribunal has directed a separate meeting of the Equity shareholders Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Applicant /Transferee Company viz Acce Limited for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the Scheme of Amalgamation proposed to be made between Accel Media Ventures Limited (Transferor Company) and Accel Limited and their respective shareholder 'Scheme') pursuant to the provision of Section 230 to 232 of the Companies Act, 201: 'Companies Act') and other applicable provisions thereof and applicable rules made

n pursuance thereof a separate meeting of the Equity shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Applicant /Transferee Company viz Accel Limited will be held a under, at which time and place the said equity shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors are requested to attend

O'HERT!	Ciass of meetings	Time hory	Date of meeting	riace of incetting		
1.	Equity Shareholders	11.30 AM		III Floor, SFI Complex, 178,		
2	Secured Creditors	02.00 PM 09.08.2025		Valluvarkottam High Road, Nungambakkam Chennai –		
3.	Unsecured Creditors	03.30 PM		600 034.		

The said notice of the meeting along with the Proxy form and attendance slip has been ser to the members whose names appeared in the Register of Members as on the close of business hours on 04.07.2025 as maintained by Depository Participants / Registrar & Shan Transfer Agent (RTA) of the company and to unsecured creditors as on 31.12.2024 through

The notice along with the statement, attendance and Proxy forms are also uploaded on the company's website www.accel-india.com. The said documents are also available at the Registered Office for inspection during normal business hours (11.00 AM to 1.00 PM) on a days (except Saturdays, Sundays and public holidays) upto one day prior to the date of the meeting. For any communication, the members may send their request to company's investor relations email id: companysecretary@accel-india.com or to RTA.

Copies of the said compromise or arrangement or amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company at 3rd Floor, SFI Complex, 178, Valluvarkottam High Road, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu India, 600034. Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings) may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be had at the registered office of the Company.

The Tribunal has appointed Hon'ble Justice (Rtd) Elangovan, Former Judge of High Court of Madras as Chairperson of the said meetings. The above-mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the tribunal.

The Tribunal has appointed Adv. A. Raymond as Scrutinizer to scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

E-VOTING INFORMATION: In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the ICSI as amended from to time, the company is pleased to provide its members, the facility to exercise their vote by electronic means is respect of the resolutions as set out in the notice calling the EGM through e-voting services ("remote e-voting") as National Security Depository Ltd ("NSDL") at the links https://www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting shall commence on 06th August 2025 at 9.00 AM and will ends on 08th August 2025 at 5.00 PM. During the period, members holding shares in either physical or in dematerialized form as on the cutoff date i.e. 02nd August 2025 may cast their vote by remote e-voting. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once, the vote on resolutions is cast by members, the members shall not be allowed to change it subsequently

Any person who acquires shares of the company and become member of the company after dispatch of notice as of the cutoff date i.e. 02nd August 2025 may obtain login id and password by sending a request to evoting@nsdl.com. However, if Member is already registered with NSDL for remote e-voting then Member can use existing user ID and password or casting vote. If Member has lost or forgotten password, Member can reset password by using "Forgot User Details/Password" option available on www.evoting.nsdl.comor contact NSDL at the toll free no: 1800-222-990.Members may participate in the EGM even after exercising their right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the EGM. The facility for voting through Polling Paper shall be made available at the EGM and the Members attending the EGM who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote at the EGM through Polling Paper. For any grievance with respect to remote e-voting, Members may contact to NSDL by email at evoting@nsdl.co.in or to the Company Secretary a companysecretary@accel-india.com

For Accel Limited Vishnu Sivanandar Date: 07.07.2025 Company Secretary & Place: Chennai Compliance Officer

AVI POLYMERS LIMITED

("AVI"/"TARGET COMPANY"/"TC") CIN No.: L27204JH1993PLC005233

Registered Office: Ambica & Co., Old H.B. Road, Ranchi - 834009, Jharkhand Corporate Office: - S3, Shreejala Prime, Near Priyan Heritage, Opp. Prajapita Bhrama Kumari, Ishwariya Vishwa Vidhyalaya, Sardar Ganj, Anand, Gujarat – 388001 Contact No: +91 7048360390 Email Id: avipolymer@gmail.com Website: https://avipolymers.com

the Committee of Independent Directors (IDC) of AVI Polymers Limited ("AVI" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company made by M/s Rootsparkle Trading

1.	Date	07.07.2025
2.	Name of the Target Company	AVI POLYMERS LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEB (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 10,63,582 (Ten Lakhs Sixty-Three Thousand Five Hundred Eighty-Two) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing 26,00% of the voting share capital of the Target Company from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 13,00/- (Rupees Thirteen) per Equity share (Offer Price) ("Open Offer").
4.	Name of the Acquirer	Mis Rootsparkle Trading Private Limited and There is no Person Acting in Concert for this offer
5.	Name of the Manager to the offer	Grow House Wealth Management Private Limited (CIN.: U67100GJ2022PTC133630) A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054. Tel: +91 79353 33132 / +91-79-35333682; Email: takeover@growhousewealth.com Website: www.growhousewealth.com Contact Person: Mr. Hill Shah SEBI Registration No.: INM000013262 SEBI Registration Validity: Permanent
6.	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	Mr. Ram Kumar Singh (DIN No: 10871912)- Chairperson Ms. Sapna (DIN No: 10294154)- Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	All IDC Members are Independent and Non-Executive directors on the board of Target Company, Further, the members of IDC confirm that they do not hold any equity shares or other securities in the Target Company. Other than their positions as directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/other Securities of the Target Company during the: a. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA") dated March 06, 2025; and b. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members: a. are the directors of the Acquirer; b. hold any Equity Shares or other Securities of the Acquirer; or c. have any contract or any relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	None of the IDC Members have traded in Equity Shares/other Securities of the Acquirer during the: c. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement ("PA") dated March 06, 2025; and d. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, a) The IDC members are of the view that the offer price of ₹ 13.00/- (Rupees Thirteen only) per Equity Share is in the line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations, 2011; b) IDC members believe that the offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011and the same is fair and reasonable; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis a vis current market price and take an informed decision before participating in the offer.
12.	Summary of reasons for recommendation	The IDC Members have reviewed: Public Announcement ("PA") dated 06.03.2025 Detailed Public Statement ("DPS") dated 13.03.2025 and which was published on 13.03.2025 Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 21.03.2025 Letter of Offer ("LOF") dated 07.07.2025
13.	Disclosure of Voting Pattern	 The IDC Members also noted that: The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations, 2011. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011. The Offer Price is at par with the (1) negotiated price under the Share Purchase Agreement executed on March 06, 2025 i.e., Rs 13.00/- per Equity Share and Higher than (ii) the volume-weighted average market price for a period of sixty trading days immediately preceding the date of PA on BSE, being only stock exchange where the equity shares of the target company are listed, i.e., ₹ 12.99/- Per Equity Share.
10.	Disclusure or young Pattern	These Recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.

Any other matter to be highlighted To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF. For AVI POLYMERS LIMITED

Details of Independent Advisors, if any. None

Place: Ahmedabad

Date: 07/07/2025

Name: Mr. Ram Kumar Singh

Chairperson -Committee of Independent Directors

OUR SPECIALITY IS YOU CIN: L85110DL2004PLC126414

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Registered Office: Plot No. 14, Sector- 20, Dwarka, Delhi-110075 Corporate Office: Artemis Hospital, Sector- 51, Gurugram, Haryana- 122001 Tel.: +91-124-4511 111 | E-mail: investor@artemishospitals.com | Website: www.artemishospitals.com

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Artemis Medicare Services Limited ("the Company") will be held on Wednesday, July 30, 2025 at 3:00 P.M. (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with MCA General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, and the subsequent circulars issued in this regard, the latest being Circular no. 09/2024 dated September 19, 2024 ("MCA Circulars") without the physical presence of the Members at a common venue.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and applicable provisions of the SEBI Listing Regulations, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2024-25 have been sent on July 2025 in electronic mode via e-mail to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company/ Alankit Assignments Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DP) as on June 27, 2025. The Notice of AGM and Annual Report is also available on the website of the Company i.e. www.artemishospitals.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, where the Company's shares are listed and on website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com

Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the SEBI Listing Regulations, a letter has been sent on July 7, 2025, to the Members whose e-mail address is not registered with the Company/ its RTA/ DP, providing the exact weblink of the Company's website from where the Annual Report for the financial year 2024-25 can be accessed. The facility of casting the votes by the Members (e-Voting) will be provided by NSDL. The Notice of AGM contains the

instructions regarding the manner in which the Members can join the AGM and cast their votes through remote e-Voting and e-Voting during the AGM.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set forth in the Notice of AGM through remote e-Voting or e-Voting during the AGM in the manner provided in the Notice of AGM

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 23, 2025, may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of NSDL. The voting right of Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. All the Members are informed that:

 The Ordinary and Special Businesses as set out in the Notice of AGM will be transacted through voting by electronic means;

The remote e-Voting shall commence on Sunday, July 27, 2025 at 9:00 A.M. (IST);

The remote e-Voting shall end on Tuesday, July 29, 2025 at 5:00 P.M. (IST);

 The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting or e-Voting at the AGM is Wednesday. July 23, 2025 and a person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice of AGM and is holding shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, July 23, 2025, can follow the process for generating the login ID and password as provided in the Notice of AGM. If such a person is already registered with NSDL for e-Voting, the existing user Id and password can be used for casting vote:

Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for remote e-Voting and once the vote on a resolution is casted by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; c) the facility for voting through electronic mode shall be made available at the AGM; d) a person whose name is recorded in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on the cut-off date i.e., Wednesday, July 23, 2025 only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as e-Voting at the AGM.

7. The Annual Report for the financial year 2024-25 and the Notice of AGM is available on the web-link www.artemishospitals.com/investors.

The Record date for the purpose of determining entitlement of Members for the final dividend is Friday, July 11, 2025. The payment of dividend shall be made within 30 days from the date of AGM, subject to approval of the Members at Mr. Deepak Kukreia (CP No. 8265), and Ms. Monika Kohli (CP No. 4936), Partners, DMK Associates, Practicing

Company Secretaries, have been appointed as Scrutinizer and Alternate Scrutinizer, respectively, to scrutinize the e-Voting process in a fair and transparent manner.

Members holding shares in demat mode and have not updated their KYC details, such as PAN, e-mail address and bank account details, are requested to register the same with their DP Members holding shares in physical mode who have not updated their KYC details are requested to update the same with the Company's RTA.

In case of any queries including issues and concerns related to remote e-Voting and e-Voting at the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL, 301, 3rd Floor, Naman Chambers, Plot No. C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051 at the designated e-mail id evoting@nsdl.com, who will address the grievances connected with the voting by electronic means. Members may also write to the Company Secretary at investor@artemishospitals.com.

> For Artemis Medicare Services Limited Poonam Makkar

Place: Gurugram New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

epaper.financialexpress.com

Date: July 7, 2025

कार्यालय अधी	क्ष	ण अभियन्ता, सा. नि. वि	व. वृत, नागौर (राज.)				
क्रमांक :- 1211	1,						
₹	ांश	गेधित निविदा सूचना संख्या ०५ व	र्ष 2025-26				
		पूर्व में लिखा गया	अब पढ़ा जावे				
निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की दिनांक	:	बुधवार 11 जून 2025 से सोमवार 30 जून 2025 सांय 18.00 बजे तक	बुधवार 11 जून 2025 से बुधवार 09 जुलाई 2025 सांय 18.00 बजे तक				
ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा कराने की दिनांक	:	बुधवार 11 जून 2025 से सोमवार 30 जून 2025 सांय 18.00 बजे तक	बुधवार 11 जून 2025 से बुधवार 09 जुलाई 2025 सांय 18.00 बजे तक				
ऑनलाईन धरोहर राशि जमा कराने कि दिनांक	:	बुधवार 11 जून 2025 से सोमवार 30 जून 2025 सांय 18.00 बजे तक	बुधवार 11 जून 2025 से बुधवार 09 जुलाई 2025 सांय 18.00 बजे तक				
ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक	:	निविदा को दिनांक (मंगलवार 01.07.2025 को सायः 16:00 बजे खोली जायेगीं।	निविदा को दिनांक (गुरूवार 10.07.2025 को सायः 16:00 बजे खोली जायेगीं।				
निविदा की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। हस्ता./-							
(बस्तीराम डिडेल)							
			अधीक्षण अभियंता,				

DIPR/C/8998/2025

फॉर्म-जी अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण एमडीएम टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम, हरियाणा में अन्य थोक व्यापार में परिचालन

सा.नि.वि. वृत, नागौर

(बिना किसी विशेष विशेषज्ञता के विभिन्न वस्तुओं का थोक व्यापार) (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमों, 2016 के विनियम 36ए उप विनियम (1) के अधीन)

संबंधित विवरण

1.	पेन/सीआईएन/एलएलपी नंबर के साथ कॉरपोरेट देनदार का नाम	एमडीएम टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड PAN: AAMCM5151D CIN: U51909HR2019PTC079047
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	राधे कुंज राजा वली धानी रोड, जी31- मानेसर, एनएसज् कैंप मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122051
3.	वेबसाइट का यूआरएल	उपलब्ध नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	पंजीकृत पताः राधे कुंज राजा वली धानी रोड, जी31-मानेस एनएसजी कैंप मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा, भारत, 122051 पंजीकृत कार्यालय 411-बी, चौथी मंजिल पर वेल डन टेव् पार्क, सेक्टर 48, सोहाना रोड, डीएलएफ क्यूई, हरियाणा 122002 कॉरपोरेट पताः 416, 4एफ, चौथी मंजिल, आईएलडी ट्रे सेंटर, सेक्टर-47, गुरुग्राम, हरियाणा-122018
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	उपलब्ध नहीं
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	वित्त वर्ष 2020-21 में बिक्री रु. 2,389,393,713 रुपये वित्त वर्ष 2019-20 में बिक्री रु. 1,629,168,381 रुपये (एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध वित्तीय विवरणों अनुसार)। प्रस्ताव पेशेवर के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसा कॉरपोरेट देनदार वर्तमान में कोई व्यावसायिक गतिविधिनहीं कर रहा है।
7.	कामगार/कर्मचारियों की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूची के साथ), लेनदारों की सूची का विवरण यूआरएल पर उपलब्ध हैं:	विवरण cirp.mdmteleventures@gmail.com प ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
9.	कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन प्रस्ताव आवेदकों के लिए पात्रता उपलब्ध है	विवरण cirp.mdmteleventures@gmail.com प ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	23.07.2025
11.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	02.08.2025
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियों के प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि	07.08.2025
13.	प्रत्याशित प्रस्ताव आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	17.08.2025
14.	प्रस्ताव आवेदकों से सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन सारणी, प्रस्ताव योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	22.08.2025
15.	प्रस्ताव योजना के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	21.09.2025
16.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आईडी	cirp.mdmteleventures@gmail.com
17.	कॉरपोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में	उपलब्ध नहीं

श्री अशोक कक्कड प्रस्ताव पेशेवर एमडीएम टेलीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड आईबीबीआई पंजी. सं. आईबीबीआई/आईपीए-002/आईपी-एन01066/2020-2021/13407 पताः पताः # 538, शांतिवन सोसाइटी, सेक्टर 48 ए, तिथिः 08.07.2025 चंडीगढ़-160047 स्थानः चंडीगढ़ ईमेलः cirp.mdmteleventures@gmail.com

बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड

सीआईएन : L65993DL1990PLC039397 पंजीकृत कार्यालय : 607, रोहित हाउस, 3, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली – 110 001 वेबसाइट : www.bervin.com, ईमेल आईडी : secretary@bervin.com । दूरभाष सं. +91-11-43528248 पोस्टल बैलेट सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

एतदद्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) (इसमें समय–समय पर लागू अनुसार किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनर्सशोधन(नों) अथवा उसके पुनरअधिनियमन(नों) सहित) की घोरा 108 के साथ पठित धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22 के साथ पठित (नियम), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (एसएस–2) द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवीय मानक–2, प्रत्येक संशोधित रूप में, के अनुसार, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और उसके बाद जारी किए गए विभिन्न परिपत्रों के साथ परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार और ऐसे अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अधीन, यदि कोई हो, बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों से केवल दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग (दूरस्थ ई-वोटिंग) प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल बैलट के माध्यम से यहां नीचे दिये गये अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए प्रस्ताव के लिए।

क्र. सं.	विवरण	प्रस्ताव का माध्यम
01	श्री अशोक ओगरा (डीआईएन : 11115254) की कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति।	विशेष प्रस्ताव

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने सोमवार, 07 जुलाई, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोस्टल बैलेट सूचना केवल उन सदस्यों को भेजी है, जिनके नाम शुक्रवार, 04 जुलाई, 2025 ("कट-ऑफ तिथि") को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") ("डिपॉजिटरी") से प्राप्त कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दिखाई दिए थे और जिनके ईमेल पते कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं। तदनुसार, इस पोस्टल बैलेट के लिए सदस्यों को पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ सूचना की भौतिक प्रतियां नहीं भेजी गई हैं। कोई व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, वह इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से ही समझेगा।

पोस्टल बैलेट सचना कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com और "एनएसडीएल" की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। ये स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

कंपनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएँ ली हैं और सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल रिमोट ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ही होगा। रिमोट ई-वोटिंग कार्यक्रम : रिमोट र्र_नोटिंग अनुधि का आरंभ मंग्रजनाय ०० जन्मार्ट २०२६ (गानः ०:०० बज्ने आर्ट्यायरी)

रिनाट इ पाटिन जवाब वर्ग जारन	1110141 00 gent 2025 (AICH 3:00 401 01135(1CI)
रिमोट ई-वोटिंग अवधि का समापन	बुधवार 06 अगस्त 2025 (सायं 5:00 बजे आईएसटी)
	मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और सदस्यों को
उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप	। से वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों के
वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कं	पनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए
शेयरों के अनुपात में होंगे। एक बार प्रस्ताव	पर वोट डालने के बाद, सदस्य इसे बाद में बदल नहीं
पाएंगे या फिर से वोट नहीं डाल पाएंगे। केवल	वे सदस्य जिनके नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी
के सदस्यों के रजिस्टर या लाभकारी मालिकों	की सूची में दर्ज हैं, रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट
दालने के इकटार होंगे।	

रिमोट ई—वोटिंग की प्रक्रिया के बारे में निर्देश, जिसमें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिन्होंने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट कैसे डाल सकते हैं, इस बारे में सूचना में जानकारी दी गई है।

कंपनी ने सुश्री मनीषा गुप्ता, (सदस्यता संख्या एफ6378 । सीपी संख्या 6808), मैसर्स मनीषा गुप्ता एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की प्रोपराइटर को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिए जांचकर्ता नियुक्त किया है।

डाले गए वोटों की जांच पूरी होने के बाद, जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को सौंपेगा। जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम अध्यक्ष या ऐसे अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्धारित वैधानिक समयसीमा के भीतर घोषित किए जाएंगे। दूरस्थ ई–वोटिंग के परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.bervin.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे और उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और उन पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com पर भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

यदि प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाते हैं, तो उन्हें मतदान अवधि की अंतिम तिथि यानी बुधवार, 06 अगस्त, 2025 को पारित माना जाएगा। किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में सदस्यों के

लिए प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 — 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या श्री अमित विशाल, उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक – एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं या एनएसडीएल, तृतीय – सातवें तल, नमन चैंबर्स, प्लॉट सी 32, जी – ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई – 400 051, भारत से संपर्क कर सकते हैं।

कृते बर्विन इन्वेस्टमेंट एंड लीजिंग लिमिटेड कल्पना उमाकाँत कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं. 6984

स्थान : नई दिल्ली दिनाँक : 07 जुलाई 2025

Home Loans	इंडिया रोल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड				
	माँग सूचना				

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट नंबर 61, ग्राउंड फ्लोर न्यू हाउसिंग बोर्ड रोड, महाराणा प्रताप सर्कल, शिव कॉलोनी (स्यामपुरा), बांसवाडा राजस्थान - 327001, ग्राउंड फ्लोर, गिल भवन, रोड नंबर-3, सामने :- स्काईलाइन हॉस्पिटल, झूंझुनू-333001, प्लॉट नंबर 658, ग्रथम तल, यस बैंक के पास, नवाली गेट, एनएच 62, बीकानेर रोड, नोखा–334803, राजस्थान, मारवाड हाउस, द्वितीय तल, जयपुर रोड, सूचना केंद्र चौराहा, अजमेर – 305001, प्लॉट नंबर ए–94, 95, प्रथम तल, अखिल विकास योजना, शिव गौरी प्लाजा जोधपुर – 342001, छाबड़ा बिल्डिंग मटेरियल्स, प्लॉट नंबर 8 और 9. प्रथम तल, गौरव पथ, भारत माता पार्क के पास, तिरुपति कोंलोनी, भवानी मंडी, झालावाड़, राजस्थान-326502, प्रथम तल, 10—डी, पंजवानी कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पंज स्कूल के सामने, गुमानपुरा, कोटा—324007, राजस्थान, प्लॉट नंबर—36, ग्राउंड पलोर, रिद्धि सिद्धि निवास, कॅप्टन कॉलोनी, जयपुर रोड, कामधेनु सर्कल, टॉक, राजस्थान-304001, प्लॉट नंबर 01 और 02, प्रथम तल, खसरा नंबर— 266, 271, आलनपुर लिंक रोड, सामने – लाला ट्रेडर्स, संवाई माधोपुर, राजस्थान – 322001, रामेश्बर प्लाजा, प्रथम तल, दुकान नंबर-1, सदर बाजार, राका मार्केट के सामने, पोस्ट- डेंगाना, तहसील- डेंगाना, जिला-नागौर, राजस्थान- 341503

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना। एतदहारा वह सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण लिया है, वे आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋणकर्ता(ऑ) ने आईएसएफसीएल को अथल संपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे वर्णित है। ऋण का विवरण और ऋणकर्ता/ओं की और सेआईएसएफसीएल को देय आज तक बकाया और देय राशि भी नीचे दर्शाई गई है। ऋणकर्ता(ओ) के साथ-साथ आम जनता को भी सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ऋणकर्ता(ऑ) के विरुद्ध कार्रवाई आरंग कर दी है और इस अधिनियम के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सूचना जारी की है। बंदि निम्नलिखित ऋणकर्ता सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि चुकाने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता सरफेरी अधिनियम

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर / विधिक उत्तराधिकारी / विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋण खाता सं	एनपीए तिथि / मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्तियों) का विवरण
1.	श्री/श्रीमती हेमलता पांचाल, श्री/श्रीमती प्रवीण कुमार पांचाल के कानूनी उत्तराधिकारी, पट्टा संख्या 96 खसरा संख्या 63 जी.पी. तांबेसरा पी.एस. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा राजस्थान 327602, श्री/श्रीमती विपुल कुमार पांचाल (गारंटर) वार्ड नंबर 5, जी.पी. तांबेसरा पी.एस. सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा राजस्थान 327602 LABNVLLONS000005114456/AP-10265074	10 मई— 2025	02—जून—2025 रु.2425968/— (रुपये चौबीस लाख पच्चीस हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) 02 जून 2025 तक देय, साथ में 03 जून 2025 से ब्याज और	पट्टा संख्या 96 खसरा संख्या 63, जी.पी तांबेसरा, पी.एस. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा राजस्थान का पूरा टुकड़ा और पार्सल — कुल क्षेत्रफल 1150 वर्ग फीट। सीमा:— पूर्व—घर सुखलाल कलाल, पश्चिम—घर राजेंद्र पांचाल दक्षिण—दिग्विजय सिंह की भूमि, उत्तर—आम सड़क।
2.	श्री/श्रीमती सरोज देवी शर्मा, श्री/श्रीमती अमृत कुमार शर्मा के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री श्रीमती विनोद कुमार शर्मा, पट्टा नंबर 01, ब्रह्मपुरी, ग्राम — नरवर, जीपी — नरवर पी.एस. — श्रीनगर, जिला अजमेर, 305811 राजस्थानLA30CLONS000005014113/AP. 10037922	10मई— 2025 02—जून— 2025	(रुपये पांच लाख नब्बे हजार एक सौ तीन मात्र) 02 जून 2025 तक देय, साथ में 03 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की	पट्टा संख्या 01, बुक संख्या 21, ग्राम — नरवर जी.पी. — नरवर, पी.एस. — श्रीनगर, जिल अजमेर, राजस्थान — कुल क्षेत्रफल 147.55 वर्ग गज। सीमा :— पूर्व— शंकरलाल शर्मा क मकान, पश्चिम— आम सड़क, उत्तर— रतनलाल शर्मा का मकान, दक्षिण— आम सड़क।
3.	श्री/श्रीमती मंजू देवी, श्री/श्रीमती बाल किशन के कानूनी उत्तराधिकारी, त्रिमूर्ति मंदिर माली मोहल्ला मकराना नागौर राजस्थान 341505, 341505 राजस्थान LA20VLLONS000005078143/A P-10189089	10मई— 2025 02—जून— 2025	(रुपये एक लाख सत्रह हजार नौ सौ इकहत्तर मात्र) 02 जून 2025	पष्टा संख्या 589 का पूरा टुकड़ा और पार्सल त्रिमूर्ति मंदिर के सामने माली मोहल्ला मकरान नागौर राजस्थान 341505 मापने वाला क्षेत्रफल्लगभग 67.21 वर्ग मीटर। सीमा:— पूर्व—जशवंद टुंडवाल का मकान, पश्चिम—सड़क उत्तर—भगवती प्रसाद का मकान दक्षिण—मेघराज का मकान और बिरदीचंद क मकान
4.	श्री / श्रीमती जयकुंवर पत्नी सुल्तान सिंह, श्री / श्रीमती सुल्तान सिंह पुत्र दुले सिंह, श्री / श्रीमती सालू सिंह पुत्र कालू सिंह, उन मेडी का हाथ ढाबला गांव ढाबला, ग्राम पंचायत— धतूरिया, पीएस— डग जिला झालावाड़, राजस्थान 326514 LA12VLLONS000005094552 और HL12RNLONS0000051024271 AP-10214159 और AP-10225497	अप्रैल—2025	(रुपये तेरह लाख नब्बे हजार तिहत्तर मात्र) 02 जून 2025 तक देय, साथ में 03 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि	संपत्ति "ए" का पूरा टुकड़ा और पार्सल, खसर संख्या 957 के भाग पर स्थित, पंजीकृत पट्ट संख्या जेडब्ल्यूआर 41699, मकान/भूखंड के आवासीय उपयोग के लिए, माप क्षेत्र = 2000 वर्ग फिट, गांव— ढाबला तह. डग, जिल झालावाड़ (राज.) में स्थित। सीमा पूर्व— आगरास्ता 10' चौड़ा, पश्चिम— भुवन लाल/पयार डोली का मकान, उत्तर— आम रास्ता 10 फीट चौड़ा, दक्षिण— रामचंदर/मोतीलाल बारेट क मकान। और संपत्ति "बी" खसरा संख्या 957 के भाग पर स्थित, पंजीकृत पट्टा संख्या जेडब्ल्यूआर 41698, मकान/भूखंड के आवासीय उपयोग के लिए क्षेत्रफल माप = 1008 वर्ग फिट गांव—ढाबला तह. डग, जिला झालावाड़ (राज.) में स्थित। सीमा पूर्व— मेहरबान सिंह/शंकर सिंह का घर, पश्चिम— आम रास्ता 7 फीट चौड़ा उत्तर— गुमान सिंह/मांगीलाल का घर।
5.	श्री/श्रीमती सुवती के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री/श्रीमती पुखराज सोनी, वार्ड नंबर ०६ शोभना बीकानेर नोखा 334803 राजस्थान HLANKSVLONS000005116899 /AP-10275148	10 मई—2025 02—जून— 2025	(रुपये दस लाख सत्तासी हजार आठ सौ आठ मात्र) 02 जून 2025 तक देय, साथ में 03 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की	पहा संख्या— 026, बुक संख्या— 10, गांव और जीपी— शोभना, पीएस—पांचू, बीकानेर राजस्थान का पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्र माप्लगभग 839.75 वर्ग गज, सीमा :— पूर्व— माधे सिंह/भेरू सिंह, पश्चिम— मुख्य सड़क, दक्षिण—मूली देवी/कर्णाराम सोनी, उत्तर— बुल कंवर/भंवर सिंह और नवल सिंह
6.	श्री/श्रीमती गायत्री देवी, श्री/श्रीमती मेघराज मेहता के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री/श्रीमती प्रदीप मेहता, सरकारी स्कूलके पास, प्रेम नगर द्वितीय औद्योगिक एस्टेट कोटा एस.ओ. औद्योगिक संपदा कोटा राजस्थान—324003 324003 राजस्थान LA32CLLONS0000050519241A P-10118733	10—अप्रैल— 2025 28—मई— 2025	(रुपये पांच लाख अड्डाईस हजार तीन सौ चालीस मात्र) 28 मई	सर्वे नंबर 068 / 1059 प्रेम नगर द्वितीय कोट राजस्थान— 324003 कोटा का पूरा टुकड़ा और पार्सल, सीमा :— पूर्व— सीता राम का मकान पश्चिम— संजय का मकान, उत्तर— रोड दक्षिण— रोड,
7.	श्री / श्रीमती मुन्नी देवी, श्री / श्रीमती गिरधारी के कानूनी वारिस, वार्ड नंबर 03, मंडावा मंडावा झुंझुनू 333704 राजस्थान LA11VLLONS000005059629/A P-10140858	2025	(रुपये आठ लाख चौदह हजार	पट्टा संख्या 614, वार्ड संख्या 03, मंडावा झुनझुनू झुनझुनू राजस्थान, सीमाः– पूर्व– पुरुषोत्तम पश्चिम– रास्ता, उत्तर– मोहन, दक्षिण– सांवेर माल
8.	श्री/श्रीमती जसु कंवर, श्री/श्रीमती नाथू सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी, जटिया कॉलोनी तिवारी जिला जोधपुर राजस्थान 342306 342306 राजस्थान LA34VLLONS000005077011/A P-10185637	10 अप्रैल— 2025 28 मई—2025	(रुपये आठ लाख इकसठ हजार आठ सौ पचास मात्र) 28 मई 2025 तक देय, साथ में 29 मई	प्लॉट नंबर 20 जिटया कॉलोनी ग्राम तिंवरीं जोधपुर राजस्थान 342306 जोधपुर का पूर पार्सल, सीमा:— पूर्व—20 फीट रोड और रेलवें सीमा रेखा, पश्चिम—प्लॉट नंबर 19/ मुर्न्न देवी, उत्तर— 10 फीट गली, दक्षिण— प्लॉट नंबर 17/ छोटूलाल
9.	श्री/श्रीमती रामकन्या देवी के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री/श्रीमती बुद्धि प्रकाश मीणा, डूंगरी सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर 322033 राजस्थान HLSWRNLONS000005091150/ AP-10215728	10अप्रैल— 2025 28—मई— 2025	(रुपये दस लाख उनतालिस हजार दो सौ पैंतीस मात्र) 28 मई 2025 तक देय, 29 मई 2025 से ब्याज सहित तथा	पट्टा संख्या 86 बुक संख्या 31 का सम्पूर्ण टुकड़ा व पार्सल, ग्राम व ग्राम पंचायत डूंगरी तहसील खंडार पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर कोटा, सीमा :— पूर्व— आम रास्ता, पश्चिम— आम रास्ता फिर जे. प्रेमराज व हेमराज का मकान, उत्तर— आम रास्ता, दक्षिण—रामस्वरूप का मकान,
10.	श्री/श्रीमती मीरा देवी, श्री/श्रीमती जगदीश, श्री/श्रीमती कालू राम के कानूनी वारिस, मकान नं. 996 बड़ी खेड़ा बड़ अजमेर, बिजयनगर आरजे 305624 305624 राजस्थान LA30ECLONS000005031903 और CLA100002226/AP- 10062043 और AP-0661027	2025	(रुपये चार लाख आठ हजार चार सौ पचपन मात्र) 28 मई 2025 तक देय 29 मई 2025 से	पट्टा संख्या 5 और 6 का पूरा टुकड़ा और पार्सल खसरा संख्या—1539 गांव बड़ी ग्राम् पंचायत बड़ी पी एस मसूदा अजमेर बिजयनगर आरजे 305624 बिजयनगर, सीमा:— पूर्व- रास्ता, पश्चिम— छोटू, उत्तर— छोटू और रास्ता दक्षिण— शिवराज,
11.	श्री/श्रीमती कमला, श्री/श्रीमती संदीप कुमार के कानूनी वारिस, वार्ड नंबर 14, राजपुरा राजपुरा राजपुरा 331029 राजस्थान HL11HLLONS000005042077 औरHLCHRNLONS000005095340 /AP-10090960 और AP-10227941	10 अप्रैल— 2025 28—मई— 2025	(रुपये तेरह लाख पच्चीस हजार छह सौ निन्यानबे मात्र) 28 मर्ड	पट्टा संख्या 23, बुक संख्या 24 राजपुरा तारानगरचूरूचूरू, सीमाः— उत्तर— कॉमन रोड दक्षिण— स्वयं की भूमि, पूर्व— कॉमन वे पश्चिम— रावता राम और स्वयं की भूमि
12.	श्री/श्रीमती परिमला, श्री/श्रीमती रणछोड़ पाटीदार के कानूनी उत्तराधिकारी, शिवाजी गली होली चोक मोहल्ला नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान 327034 राजस्थान LABNCLLONS000005052661 और HLBNCHLONS000005071941/AP -10167379 और AP-10121562		(रुपये एक लाख बीस हजार आठ सौ अट्ठहत्तर मात्र) 28 मई 2025 तक देय, साथ में 29 मई 2025 से ब्याज और भगतान की	पट्टा संख्या 03 खसरा संख्या 2979 जीपी नौगामा पीएस बागीडोरत एच और जिल बांसवाड़ा राजस्थान उदयपुर का पूरा टुकड़ और पार्सल, सीमा:— पूर्व—स्वयं भूमि फिर सड़क पश्चिम—स्वयं भूमि फिर एच.ओ. प्रताप और दिनेश, उत्तर—एच.ओ. प्रताप जी, दक्षिण—एच.ओ धनेश्वर जी.

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT FOR ATTENTION TO THE SHAREHOLDERS OF

("SEL"/"TARGET COMPANY"/"TC") (Corporate Identification No. L45202MH1982PLC026737) Registered Office: 415-416, Arun Chambers, 4th Floor, Tardeo Road, Mumbai - 400034, Maharashtra; Phone No.: +91-22-66627383/66627384/49713666;

Email id: sitaenterprisesItd@yahoo.com; Website: www.sitaenterprises.com

In compliance with Regulations 3 (1) and 4 read with Regulations 15 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 This corrigendum to the detailed public statement is being issued by Navigant Corporate Advisors Limited, on behalf of Mr. Jitendra Rasiklal Sanghavi (Acquirer) in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SEBI (SAST) Regulations") and the SEBI Observation Letter no. SEBI/HO/CFD/CFD-RAC-DCR2/P/0W/2025/0000009188/1 dated March 25, 2025 on in respect of Open Offer ("Offer") for the acquisition up to 7,50,000 Equity Shares of Rs. 10/- each representing 25.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company. The Detailed Public Statement ("DPS") pursuant to the Public Announcement ("PA") made by the Acquirers have appeared in Financial Express - English Daily (all editions); Jansatta - Hindi Daily (all editions); Pratahkaal - Marathi Daily (Mumbai edition) on January 01, 2025.

THE SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY ARE REQUESTED TO KINDLY NOTE THAT THE FOLLOWING INFORMATION RELATED TO OFFER:

Update in the schedule of Activities: The original and revised schedule of activities is set forth as below:

Activity	Original Date	Original Day	Revised Date	Revised Day
Public Announcement	24.12.2024	Tuesday	24.12.2024	Tuesday
Publication of Detailed Public Statement in newspapers	01.01.2025	Wednesday	01.01.2025	Wednesday
Submission of Detailed Public Statement to BSE, Target Company & SEBI	01.01.2025	Wednesday	01.01.2025	Wednesday
Last date of filing draft letter of offer with SEBI	08.01.2025	Wednesday	08.01.2025	Wednesday
Last date for a Competing offer	22.01.2025	Wednesday	22.01.2025	Wednesday
Receipt of comments from SEBI on draft letter of offer	29.01.2025	Wednesday	25.03.2025	Tuesday
Receipt of approval from Reserve Bank of India*	N.A.	N.A.	02.07.2025	Wednesday
Identified date**	31.01.2025	Friday	04.07.2025	Friday
Date by which letter of offer be dispatched to the shareholders	07.02.2025	Friday	11.07.2025	Friday
Last date for revising the Offer Price	12.02.2025	Wednesday	16.07.2025	Wednesday
Comments from Committee of Independent Directors of Target Company	12.02.2025	Wednesday	16.07.2025	Wednesday
Advertisement of Schedule of activities for open offer, status of statutory and other approvals in newspapers and sending to SEBI, Stock Exchange and Target Company	13.02.2025	Thursday	17,07.2025	Thursday
Date of Opening of the Offer***	14.02.2025	Friday	18.07.2025	Friday
Date of Closure of the Offer	03.03.2025	Monday	31.07.2025	Thursday
Post Offer Advertisement	10.03.2025	Monday	07.08.2025	Thursday
Payment of consideration for the acquired shares	18.03.2025	Tuesday	14.08.2025	Thursday
Final report from Merchant Banker	25.03.2025	Tuesday	22.08.2025	Friday

*Refers to the date on which the letter dated July 02, 2025 from the Reserve Bank of India was received by the Target Company, granting the approval for the proposed change in Management and Control of the Target Company to the Acquirer.

**Identified Date is only for the purpose of determining the names of the shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All owners (registered or unregistered) of equity shares of the Target Company (except the Acquirer, Sellers and Promoter and Promoter Group) are eligible to participate in the Offer any time before the closure of the Offer.

***The date has been calculated from July 02, 2025, being the date of receipt of Reserve Bank of India's letter dated July 02, 2025 by the Target Company, and based on the letter dated 25" March, 2025, from SEBI where SEBI has granted extension for commencement of the tendering period not later than 12 working days from the date of receipt of RBI Approval.

2. Update in the Offer Price: The offer price has been initially decided at Rs. 90/- (Rupees Ninety Only) per equity share in accordance with Regulation 8 (8) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. Further, in line with SEBI letter dated March 25, 2025, in addition to the offer price mentioned above, the Acquirers shall pay interest @ 10% per annum as prescribed in Regulation 18 (11A) of SEBI (SAST) Regulations for any delay in payment beyond the Scheduled Payment Date (period commencing from the Scheduled Payment Date till the actual date of payment of consideration under the Offer). Accordingly, the Offer Price has been revised to Rs. 92.50/- (Rupees Ninety-Two and Paisa Fifty only) including interest @ 10% per annum per equity share for delay in payment beyond the scheduled payment date per fully paid- up Equity Share of Rs. 10 each.

All other terms and conditions remain unchanged. Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER



804, Meadows, Sahar Plaza Complex, J B Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai - 400059. Tel No. +91 22 4120 4837 / 4973 5078 Email id: navigant@navigantcorp.com

Website: www.navigantcorp.com Navigant SEBI Registration No: INM000012243 Contact person: Mr. Sarthak Vijlani

Place: Mumbai Date: July 07, 2025



आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड CIN: L85110DL2004PLC126414

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर १४, सेक्टर- २०, द्वारका, दिल्ली-११००७५ कॉपॅरिट कार्यालय: आर्टेमिस अस्पताल, सेक्टर- ५१, गुरुग्राम, हरियाणा- १२२००१ टेलीफोन: +91-124-4511 111 | ई-मेल: investor@artemishospitals.com | वेबसाइट: www.artemishospitals.com

21st वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, २०१३ ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०१५ ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के साथ पठित एमसीए सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२०, २०/२०२० दिनांक ५ मई, २०२० और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपन्नों 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ("एमसीए परिपन्न") के अनुपालन में आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की **२१^म वार्षिक आम बैठक (एजीएम) ब्धवार, ३० ज़लाई, २०२५ को दोपहर ३:०० बजे (आईएसटी)** एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी लिस्टिंग विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ७ जुलाई, २०२५ को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ई-मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं, जिनकी ई-मेल आईडी २७ जून, २०२५ को कंपनी/अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए)/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.artemishospitals.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट(ओं) यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध है, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, ७ जुलाई २०२५ को उन सदस्यों को एक पत्र भेजा गया है, जिनका ई-मेल पता कंपनी/इसके आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं है, जिसमें कंपनी की वेबसाइट का सटीक वेब-लिंक प्रदान किया गया है, जहां से वितीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट देखी जा सकती है।

सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा (ई-वोटिंग) एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। एजीएम की सूचना में इस बारे में निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं या जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें एजीएम की सूचना में निधरित व्यवसायों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम की सुचना में दिए गए तरीके से एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर मिलेगा।

कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, २३ जुलाई, २०२५ को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, एनएसडीएल की डलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता

है कि: एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष कारोबार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से निपदाए जाएंगे;

रिमोट ई-वोटिंग रविवार, २७ जुलाई, २०२५ को सुबह ९:०० बजे (आईएसटी) से शुरू होगी;

करवाया है उनसे अनुरोध है कि वे उन्हें अपने कंपनी के आरटीए के साथ अपडेट करें।

दिनांक: ७ जुलाई, २०२५

स्थान: गुरुग्राम

रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, २९ जुलाई, २०२५ को शाम ५:०० बजे (आईएसटी) समाप्त हो जाएगी;

रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख बुधवार, 23 जुलाई, 2025 है और जो व्यक्ति कट-ऑफ तारीख को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए;

कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर खरीदता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, २३ जुलाई, २०२५ को शेयर रखता है, वह एजीएम की सूचना में दिए गए लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जनरेट करने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है;

सदस्य कृपया ध्यान दें कि: क) रिमोट ई-वोटिंग के लिए पूर्वोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी; ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे; ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; घ) केवल वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, २३ जुलाई, २०२५ को सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज है, वह रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार

वित्तीय वर्ष २०२४-२५ की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना वेब-लिंक <u>www.artemishospitals.com/investors</u> पर उपलब्ध

अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निधारित करने के प्रयोजनार्थ रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, ११ जुलाई, २०२५ है। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक की तिथि से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा, जो 21वीं वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगा। श्री दीपक कुकरेजा (सीपी सं. 8265) और सुश्री मोनिका कोहली (सीपी सं. 4936), पार्टनर्स, डीएमके एसोसिएटस, प्रेक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए क्रमशः स्क्रुटिनाइज़र और वैकल्पिक स्कूटिनाइज़र

के रूप में नियुक्त किया गया है। डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों जिनके केवाईसी विवरण जैसे कि पैन, ई-मेल पता और बैंक खाता विवरण अपडेट नहीं है उनसे अनरोध है कि वे उन्हें अपने डी पी के साथ पंजीकृत करें। भौतिक मोड़ में शेयर रखने वाले सदस्यों जिन्होंने केवाईसी विवरण अपडेट नहीं

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग से संबंधित मुद्दों और प्रयोजन सहित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com कें डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल, 301, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर्स, प्लॉट नंबर सी-३२, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई-४०००५१ को निर्दिष्ट ई-मेल आईडी evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। सदस्य investor@artemishospitals.com पर कंपनी सचिव को भी लिख सकते हैं।

कृते आरेंमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड

पूनम मक्कड कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

28—मई—2025 रु. 1930475 / — पट्टा संख्या 12 ग्राम याकूबपुरा ग्राम पंचायत

(रुपये उन्नीस लाख तीस हजार मोहम्मद गर्थ पंचायत समिति उनियारा तहसील

2025 को देय, 29 मई 2025 से और पार्सल, सीमा :- पूर्व- आम रास्ता,

ब्याज और भुगतान की तिथि पश्चिम— आम रास्ता (खटोला का रास्ता),

तक अन्य शुल्क और लागत के उत्तर– कुल्लू खा तेली का मकान, दक्षिण–

(रुपये तेरह लाख साठ हजार दो गांव कुचामन सिटी, कुचामन सिटी, जिला

सौ पिचहत्तर मात्र) 28 मई 2025 नागौर राज. 341508, सीमा :– पूर्व– सड़क,

तक देय, साथ में 29 मई 2025 पश्चिम— विक्रेता की भूमि, उत्तर— सड़क,

19—मई—2025 रु. 205899 / — मकान नंबर बी—320 प्रेम नगर अफोर्डेबल

(रुपये दो लाख पांच हजार आठ हाउसिंग स्कीम कोटा (जी+3) एलआईजी,

सौ निन्यानबे मात्र) 19 मई 2025 जिला कोटा राजस्थान का पूरा टुकड़ा और

तक देय, 20 मई 2025 से ब्याज पार्सल, क्षेत्र माप 500 वर्ग फूट, सीमा :— पूर्व—

और भुगतान की तिथि तक अन्य आम रास्ता, पश्चिम— मकान नंबर बी—319,

(रुपये पांच लाख तिरेपन हजार संख्या ८५, ग्राम पंचायत हुंगाव कल्ला, पंचायत

एक सौ छियानबे मात्र) 02 जून समिति बिलाड़ा, जिला जोधपुर का पूरा टुकड़ा

2025 तक देय, साथ में 03 जून और पार्सल, क्षेत्रफल 182.72 वर्ग गज, सीमा :-

2025 से ब्याज और भुगतान की पूर्व- स्वयं की संपत्ति और सहीराम की संपत्ति,

तिथि तक अन्य शुल्क और पश्चिम– आम रास्ता, उत्तर– बीरबल की संपत्ति

प्राधिकृत अधिकारी, इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

10 मई— 02—जून—2025 रु. 553196/— पट्टा संख्या 03, मिसल संख्या 04/2022, बुक

उत्तर— खुला, दक्षिण— मकान नंबर बी—317

और स्वयं की संपत्ति, दक्षिण– मांगीलाल की

से ब्याज और भुगतान की तिथि दक्षिण– विक्रेता की भूमि,

चित्तर खा तेली की कृषि भूमि।

गौतम धाकड़, याकूब पुरा उनियारा गोठरा 28-मई- चार सौ पिचहत्तर मात्र) 28 मई उनियारा जिला टोंक राजस्थान का पूरा टुकड़ा

14. **श्री/श्रीमती प्रेम कंवर, श्री/श्रीमती** 10 अप्रैल— 28 मई—2025 रु. 1360275/— खसरा संख्या 310 का पूरा टुकड़ा और पार्सल,

तक अन्य शुल्क और लागत

शुल्क और लागत सहित

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री विनय राणा (7988605030) से संपर्क करें।

13. श्री / श्रीमती कांता, श्री / श्रीमती बद्री लाल 10—अप्रैल—

धाकड़ के कानूनी वारिस, श्री/श्रीमती

टोंक राजस्थान ३०४०२४ ३०४०२४ राजस्थान

HL11CHLONS000005057790 और

LA11CLLONS000005056454/AP-

भवानी सिंह, बडालो का बास वार्ड नंबर

नागौर राज. 341508 341508 राजस्थान

LA30CLLONS000005028123/A

15. श्री / श्रीमती संतोष देवी पत्नी राजेश

गली कोटा 324004 राजस्थान

कुमार, श्री / श्रीमती राजेश कुमार पुत्र

रामजी लाल गुप्ता, वार्ड नंबर 30 इंदिरा

LAP200002832T0/AP-0248813

16. श्री / श्रीमती मदकी पत्नी खैराज राम,

श्री / श्रीमती महेंद्र पुत्र खैराज राम,

हूंगांव कल्ला, भावी जोधपुर, राजस्थान

LA34VLLONS000005084155/A

स्थान : राजस्थान, दिनॉंक : 08-07-2025

गांधी नगर डीसीएम बजरंग क्लीनिक की 2025

श्री / श्रीमती खैराज राम के कानूनी 02-जून-

उत्तराधिकारी, 125 विसनोइयों का बास 2025

P-10048866

342605

P-10201044

06 कुचामन सिटी कुचामन सिटी जिला 28 मई—

10133951 एवं AP-10132288